



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2018—पौष 14, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत मछुआ कल्याण तथा
मत्स्य विभाग की सेवा

| सेवा क्र. | सेवाएं | पदाधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा | द्वितीय अपील पदनाम |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | मत्स्यबीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हे चरी की स्थापना के लिये आवेदन की स्वीकृति जारी करना। तालाबों में एरियेटर की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना। | जिला अधिकारी मत्स्योदयोग। | 07 कार्य दिवस मत्स्योदयोग। | संभागीय अधिकारी मत्स्योदयोग। | 15 कार्य दिवस मत्स्योदयोग। | संचालक मत्स्योदयोग। |
| | | जिला अधिकारी मत्स्योदयोग। | 07 कार्य दिवस मत्स्योदयोग। | संभागीय अधिकारी मत्स्योदयोग। | 15 कार्य दिवस मत्स्योदयोग। | संचालक मत्स्योदयोग। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| मत्स्यबीज संवर्धन की जिला अधिकारी इकाई की स्थापना के लिए मत्स्योदयोग. आवेदन की स्वीकृति जारी करना. | 07 कार्य दिवस | संभागीय अधिकारी मत्स्योदयोग. | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग |
| पंचायती राज संस्थाओं से जिला अधिकारी प्राप्त पट्टा आवंटन के मत्स्योदयोग. प्रस्ताव पर हितग्राही की प्राथमिकता का निर्धारण. | 15 कार्य दिवस | संभागीय अधिकारी मत्स्योदयोग. | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग |
| मछुआ सहकारी समिति के जिला अधिकारी गठन पश्चात् पंजीयन हेतु मत्स्योदयोग. अनुशंसा करना. | 15 कार्य दिवस | संभागीय अधिकारी मत्स्योदयोग. | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग | 15 कार्य दिवस | संचालक मत्स्योदयोग |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.